



भारत सरकार Government of India

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय / Ministry of Agriculture & Farmers' Welfare

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग / Department of Agriculture, Cooperation & Farmers' Welfare



DESERT LOCUST SITUATION BULLETIN

Year 2020 / No. 05

अवधि / Period 01-15 March, 2020

LOCUST SITUATION : During the routine and special survey, it has been observed that India is free from gregarious as well as solitary desert locust activities during the 1st fortnight of March, 2020. Total 63 nos. of spots were observed during the surveys which are plotted on the map.



टिड्डी की गतिविधियाँ : सामान्य एवं विशेष टिड्डी सर्वे के दौरान मार्च 2020 के प्रथम पखवाड़े में भारत रेगिस्तानी टिड्डी की समूह एवं एकल गतिविधियों से मुक्त पाया गया। इस अवधि में परिसीमित रेगिस्तानी क्षेत्रों में नियमित सर्वेक्षण के दौरान कुल 63 स्थानों का अवलोकन किया गया जिन्हे मानचित्र पर चिन्हित किया गया है।



Swarm movement	: No Swarm movement was observed
Breeding	: No breeding was seen
Hoppers	: No hoppers were seen during the period
Scattered / Isolated adult/Adult Groups	: No scattered / Isolated adults were seen.

WEATHER AND ECOLOGY : Rainfall estimates (01-10 March) shows light to moderate rainfall in the Scheduled Desert Area. Soil moisture observed dry at the surveyed areas. Vegetation observed drying in the SDA.

मौसम एवं परिस्थितिकी : अनुमानित वर्षा मानचित्र (01-10 मार्च), प्रायः समस्त रेगिस्तानी क्षेत्र में निम्न से मध्यम वर्षा को दर्शाता है। सर्वे किए गए स्थानों पर भूमि नमी रहित पाई गई। रेगिस्तानी क्षेत्र में सतही वनस्पति सूखते हुए देखा गया।



FAO Update (10 March) : The situation remains extremely alarming in the Horn of Africa, specifically Kenya, Ethiopia and Somalia where widespread breeding is in progress and new swarms are starting to form, representing an unprecedented threat to food security and livelihoods at the beginning of the upcoming cropping season.

एफ. ए. ओ. अपडेट (10 मार्च) : हॉर्न आफ अफ्रीका में स्थिति अत्यंत भयावह है। मुख्यतया ईथोपिया, सोमालिया एवं केन्या जहाँ वृहद स्तर पर रेगिस्तानी टिड्डी का प्रजनन जारी है। नए दलों का बनना प्रारंभ हो चुका है जो आगामी फसली ऋतुओं के प्रारम्भ में आजीविका एवं खाद्य सुरक्षा के लिए अभूतपूर्व खतरे का संकेत है।

SWAC : Swarms laying eggs in the southwest of Iran, Mature adult groups laying eggs in Khyber Pakhtunkhwa and Baluchistan that will hatch during the second half of March and form hopper groups and small bands

दक्षिण पश्चिम एशिया आयोग : ईरान के दक्षिण पश्चिम तट पर प्रजनन जारी है। वयस्क टिड्डीयों के समूह खेबर पख्तूनवा एवं बलूचिस्तान में अंडे दे रहे हैं, जिसमें मार्च के द्वितीय पखवाड़े में फ्राके निकल आएंगे जिससे फाँकों के समूह एवं बंड बनेंगे।

FORECAST (India) : No desert locust were observed in the SDA. However, keeping in view of global situation, strict vigilance will be continued.

पूर्वानुमान : अनुसूचित रेगिस्तानी क्षेत्र में कहीं पर भी रेगिस्तानी टिड्डी को नहीं देखा गया है। फिर भी टिड्डी की वैश्विक स्थिति को देखते हुए सघन निरीक्षण कार्य जारी रहेगा।

Awareness training programme on Desert Locust

